

प्रभाती : देखो उलटी रीत जगत की

देखो उलटी रीत जगत की, पीवै जहर अमी त्यागे ।

सुख मारग में कोई कोई चाले, दुःख मारग में स भागे ॥ टेर ॥

खीर खांड का भोजन त्यागे, दारू की बोतल मांगे ।

कर्महीन क लिख्या कांकरा, मुर्दा की हाड्या चाबे ॥ १ ॥

धर्मकथा पर पीसो कोनी चोढ़े, कू रस्ता सौ सौ आगे ।

रांड भांड में घर फुन्क्यावे, घर बिना बाधा सागे ॥ २ ॥

हिन्दू होली तुरक ताजिया, बे नाचे बे राह गाजे ।

इतना प्रेम करे मालिक का, जम का सोटा ना लागे ॥ ३ ॥

एक मारगियो बगे देहनो, दूजो बगे उनके डाबो ।

दोन्या के बीच मुक्ति को गेलो, रामजीलाल वहा जाबो ॥ ४ ॥

जय श्री नाथजी की...